


SHREE KALĀPURNASURI  
SĀDHNA SMRUTI MANDIR  
SHANKHESHWAR TIRTH.



Param Pujya Āchāryadev Shrimad Ujjay  
Kalāpurnasurishwarji Mahārāj Sāheb



# Blessings

## Divine Blessings



स्व. खंडोर केशवलाल  
लालचंदभाई  
अंजार, कच्छ



खंडोर रतनबेन  
केशवलाल  
अंजार, कच्छ

*I wish that I get the same Father, the same Mother and the same Guru hereafter in my several lives, whose benevolence obligation couldn't be repaid by me, who loved me, provided me with education and culture and who permitted me to take Dikshā 25 years ago and be in the service and worship of the worth worshipping Guru for the betterment of my soul.*

*May their blessings help me to be a gem of the Jain Shāsan and attain divine eternity.....*

**- Vimalprabh Vijayji**







1 રાખી દેખી મોઠી દેવ સેવા.  
રાખી, દેખી જોઈ મોઠી દેવ સેવા.  
Deity worship based on affection-aversion and infatuation.



2 મિથ્યાવાદી પરિવારી આરંભી ગુણસેવા.  
મિથ્યાવાદી, પરિવારી જોઈ આરંભી મુઠ્ઠા સેવા.  
Serving preceptors through glib talks and worldly cravings.



3 દુષ્ટાચર્ય મીઠી અને શ્રવણ.  
કુશાચર્ય-પ્રીતિ-શ્રવણ જોઈ પાલન.  
Liking and listening & obeying to false scriptures.



4 ગણિકાનું કાર્ય.  
ગણિકા જીવન.  
Indulging in Prostitution.



5 કામકલામાં નિશ્ચિત રસચૂર.  
નિશ્ચિત કામકલામાં મેં ચોયા હુઆ.  
One who is always absorbed in sexual talks.



6 કામકલામાં નિશ્ચિત રસચૂર.  
નિશ્ચિત કામકલામાં મેં ચોયા હુઆ.  
One who is always absorbed in sexual talks.







7  
 मोटा थाई अन्याय करवो.  
 बड़ा बनकर अन्याय करना.  
*Oppressing others on attaining a position of power.*



8  
 नारदप्रकृति से कलह करवाना.  
 Causing intrigues and quarrels through betraying confidence and putting one against the other.



9  
 शेठ भली सेवक पर अन्याय करे.  
 डोट बनकर सेवक पर अन्याय करना.  
*The oppression of servants by the master.*



10  
 अग्निना भट्टा खिगेरे कर्मदान सेवे.  
 अग्नि का भट्टा आदि कर्मदान सेवन.  
*Accumulation of Karma, through sinful activities of erecting furnaces, ovens, etc.*




11  
 माल खोखो आपी ठगनार.  
 माल स्पूल देना और लुचचाई करना.  
*The rogue (trader) indulging in mal-practice of giving less than what he is paid for.*



12  
 कामकथामो निशदिन यकरूर.  
 निशदिन कामकथा में खोया हुआ.  
*One who is always absorbed in sexual talks.*








13



मातापिताने कुवयल कही अवगळे.  
मातापिता को कुवचन कहना.  
Avoiding & abusing ones parents, with foul language.



14



मानापने मूढ मानी अभिमानधी मारे.  
मातापिता को मूढ और अज्ञान मानकर  
उनके स्वाभिमान को चोट पहुँचाना.  
Considering one's parents to be fools, and hurting their self-respect.







15

**पतिने मारवा छिटे.**  
**पति पर प्रहार करना.**  
*Physically assaulting one's husband.*



16

**परधन छलानार.**  
**चोर.**  
*One who grabs and steals others property.*



17

**चोरानो माल लेनार चोर दलाल.**  
**चोरी का माल खरीदने वाला.**  
*The broker of thief, who purchases stolen goods.*



18

**सत्ताना भटथी यडे.**  
**सत्ता के मद में गर्विष्ठ बनना,**  
**धमपड में चूर होना.**  
*The brave, intoxicated by attainment of power.*



19

**लीलां ग्राड गंठेडे वनस्पति विराधे.**  
**हरे वृक्ष काटना, वनस्पति की विराधना.**  
*One who indulges in cutting and felling green tress and destroying plant lives.*



20

**धान्यनो अति संग्रह करे.**  
**धान्य का अति संग्रह करना.**  
*Hoarding grain stuff in huge quantities.*







21

परसिन्हा अणे साडी-सुगती करे.  
परसिन्हा और साडी-सुगती करे.  
Criticizing others, slandering, betraying  
and back-biting.



22

भोला लोकणे दंभी जनी ठणे.  
मुग्धलोक को वंभ से ठणे.  
Cheating gullible people by hypocrisy.



23

भोटा शोषटा लणी गरीब लाचारणे ठणे.  
झूठे बौपहे रख के गरीब लाचार को  
पीडा देना.  
Swindling and cheating the poor and the  
helpless, by manipulating account books.



24

भाल देगाडे नीलो अणे आणे नीलो.  
माल बूजा बलामा और देना बूजा.  
Displaying superior goods but delivering  
inferior ones:  
thereby deceiving the buyers



25

दलको माल आनी पैसा वधु ले.  
तुच्छ माल देकर अधिक दाम लेना.  
Charging more money  
but giving inferior goods.



26

धर्मस्थानो वईवट करता तेनु धन भक्षण करे.  
धर्मस्थान के न्यासी बनकर न्यास के  
पैसे का गबन करना.  
Misappropriating the wealth (properties)  
of the religious estates during  
management of the same.








27



व्यापारीने ठगीने माल ले.  
व्यापारी को ठगकर माल लेना.  
*Purchasing goods (from the shop) by  
deceiving the trader.*



28




सोनी अग्नि-आरंभ अणे ठगाई करे.  
सोनी के अग्नि आरंभ और ठगाई.  
*Goldsmiths kindling their (fire) works and  
swindling other' (gold etc.)*



29



परधन हरणार.  
परधन का हरण करना.  
*One who grabs (by stealing etc.)  
others property.*



30



दान न देणार तथा निषेध हरणार.  
दान न देना और देनेवाले को  
मना करना.  
*One who does not give alms nor  
allow others to do so.*



31



अभक्ष्यनुं भक्षण.  
अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण.  
*Eating non vegetarian food.*



32



दुस्साक्षी पुरणार.  
दुस्साक्षी देना.  
*Cleverly giving false statements before  
court of law (a cunning witness)*







33

सुआमहात्-आमहात् करुणार.  
आत्महत्या करुणार.  
Those who commit suicide.



34

सुंदागीरी करुणार.  
सुंदागीरी.  
Bullying others.



35

दाडु वियेरे माहड पीलु पीनार.  
मदिरापान.  
Those drunkards addicted to booze  
and intoxicating drinks.



36

मांस लुभारु करुणार.  
मांस लुभारु करुणारुवाला.  
Eating Meat.



37

महा पाडुणार.  
मधु लेनेवाला.  
Destroyers of honeycombs.



38

पक्षीगुणु शिकार करु.  
पक्षीगुणु का शिकार.  
The bird hunter.







निर्दोष पशुने कात्मार.  
निर्दोष पशु को काटना.  
The butchers who kill innocent animals.



मत्स्य कुकडाणी व्यापार करे.  
मत्स्य और कुकट का व्यापार.  
Those dealing in fish and poultry.







शस्त्रास्त्र विद्यामां प्रविष्टां हिंसा करनारने इण.  
शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण बनकर हिंसा करनेका फल.  
*The plight of one committing violence,  
after being well versed in the arts of warfare.*




जुवोले ठंडी आपनार, कापनार, शूल भोंकनार, पछाडनारने तथा हिंसाणा व दियार करनारने इण.  
अन्य जीवों को सर्बी देना, काटना, पछाडना, शूल भोंकना और हिंसा के ही विचार करनेका फल.  
*The plight of those freezing slaughtering, piercing, throwing others to ground and always engrossed in violent thoughts.*



युवालीना जुस्साभां हिंसा करवानी टेक राभनारने इण.  
परजीव पीड़ने शात्मली वृक्ष से पीडा.  
*The plight of those who behave as if they have taken and oath to kill others by violence, due to the flush and fury of youth.*



भोगने ग्रेर पानार, विषयना चिंतक तथा विषयाधीन कर्मीने सपडावनारने इण.  
अन्य को विष देना, विषय चिंतन और कामियों को फँसाने का फल.  
*The plight of those who administered poison to others, engrossed in lustful sex, thoughts and who trapped sex-crazy persons by scheming (while on the earth)*




पेय अपेय विवेकी हीनताजुं इण.  
पेय अपेय के विवेक बिना उदर भरने का फल.  
*The plight of the one lacking sense of discrimination between drinkable and non drinkable stuffs.*



हाथ पगना पापजुं इण.  
हाथों-पैरों के पापों में उपयोग का फल.  
*The plight of those who committed sins with arms and legs.*





47

विषयो भेलनार, निर्दोषो पीडनार. \* विषयों में ही रमना और निर्दोष को पीड़ा देने का फल.  
The consequences of sensual indulgence & harassment of innocents.



48

घांसीनुं निर्दय यंत्रपिताल कर्म. \* यंत्र से पीलने का कर्म.  
The oil-exPELLERS' sinful deed of crushing oilseeds in the mill



घांसी धरह घंटीना निर्दय कर्मोनुं कर्म. \* घाणी धरह और घंटी ज़ादि यंत्र के निर्दय कर्म का फल.  
The plights of those engaged in oil-crushing, Operators of water drawing wheels and grinders.





49

दल न देना, ना पडनारने डण. कानदि सारकर्म में निषेध का फल.  
The plight of one who did not give alms and of those who hindered and prohibited other from doing it.



50

भग्नाडनुं डण.  
प्रमाद का फल.  
The result of laziness and indolence.



51

नरकमां अनेक दुःख. नरक में प्राप्त होने वाले अनेक दुःख.  
Different types of sufferings caused to those condemned to hell.



52

शिकारना कार्जनुं डण.  
शिकार का फल.  
The plight of the hunter, in hell



53

सर्पने पीडनारने डण.  
सर्प को पीडा देने का फल.  
The plight of one who torments the serpents (on earth)



54

कुदृष्टिनुं डण.  
कुदृष्टि का फल.  
The result of casting lustful glances at others.



55

छुव पीडनारने डण.  
जीवों को पीसकर मारने का फल.  
The plight of one who crushes small insects.



56

पापोपदेश देनारने डण.  
पापोपदेश का फल.  
The plight of one who preaches and advocates sins.



57

वैरथी स्व पर घात करनार.  
वैर से अपनों पर घात करना.  
A man who vengefully attacks his own people.



58

निरंतर पापीने डण.  
निरंतर पापी को फल.  
The plight of the perpetual sinners.



59

सादे व्यसनमां डण.  
सप्त व्यसनों का फल.  
The result of the traditional seven types of 'sins'.



नरकमां पल वैरनी परंपरा.  
नरक में वैर की परंपरा चलती है.  
The vendetta continues even in hell.





60



सत्ताधी परने पीडनार.  
अधिकार पाकर पर को पीड़ित करना.  
*Torturing others in official capacity.*



61



हांसी करी वेर नांधनार.  
हैंसी से वेर बाँधना.  
*One who by poking fun at others antagonises them.*



62



वेकम असभज पाणी वापरवुं.  
बिन छने जल का अत्यधिक उपयोग.  
*Careless and wasteful use of unstrained (unfiltered) water.*



63



साडी बूगली करनार.  
यहाँ की वहाँ लगाना,  
सोनों में फूट डालना, सद्दाई करवाना.  
*One indulging in betraying confidences of others and creating intrigues thereby.*



64



बुगार आदिनो व्यसन.  
जुआं, आदि व्यसन.  
*Addition to gambling and other vices.*



65



जंतुनाशक औषधीयो भयंकर हिंसा.  
जंतुनाशक औषधियों से हिंसा करना.  
*Ruthless violence through killing germs by the use of germicides.*







66



साप विंछी दिगेरे मारना.  
साँप, बिच्छू आदि मारना.  
One who kills serpents, scorpions etc.



67



पक्षी पकड़ी पक्षीनी हिंसा करनार.  
जाल से पक्षियों का शिकार.  
The hunter who traps birds in his net.



68



सासुनी बहु भत्ये रंभड.  
सौस का बहु के प्रति खराब व्यवहार.  
Mothers-in-law torturing (their) daughters-in-law.



69



गांडा दुःखी दीलने पीडे.  
मन्वदुमि, दुःखी और वीन जीवों को पीड़ा देना.  
Oppression of lunatics (mentally afflicted) poor and miserable people.



70



नारने सजगदी दे.  
नारी को जला देना.  
Those who burn women alive.



71



रात्रिभोजन करे.  
रात्रिभोजन करना.  
Those who eat at night.








72

कटुत्या करी अन्येने पीडनार.  
इमहा कर दूसरी को दुःख देना.  
Harrassing others by picking  
quarrels with them.



73

पशुने नाथवा भरी करवी.  
पशु को नाथना बरसी करना.  
Sterilizing the cattle and overpowering  
them (by yoking them).



74

अतिशय भार भरे.  
अतिशय भार भरना.  
Over-loading the animals.



75

गर्भपात करनार करनार.  
गर्भपात करना करना.  
Those indulging in abortion and  
those causing them.




76

पशुमेने ठकल करनार.  
पशुओं को हलाल करना.  
Slaughter of animals & birds.



77

भाणवीने पकड़नार, भाणार.  
मछली पकड़ना बेचना और खाना.  
Those who catch, fetch and eat fish.







78

वैर करने वाले का फल. \* परस्पर वैर का फल. \* The plight of those who created enmity with others (on earth).



79

भीषणों के निवासस्थान, सज्जनों के फल. \* अन्य को भयभीत करने का और जला देने का फल. \* The plight of those terrorizing and burning alive the others.



80

पाप करे, धर्मों को बाधने के फल. \* धर्म में बाधा डालने का फल. \* The plight in hell, of one who is a sinner & who puts obstacles in the execution of religious rites.



81

मनुष्य भव पापी अधर्म करी दुष्टाच्योग करे तेनुं फल. \* मानवभूत अधर्म में बिताने का फल.  
The plight of one who thought lucky to be born as human, abuses it by indulging in anti religious activities.





82



१२-१मीन-भोड़-लीनो लोभ, तेने माटे युद्ध दिगेरेथी रैद्ध ध्यान.

जर, जमीन, जोरू के लोभ से युद्ध और रौद्र ध्यान करना.

*Those engaged and engrossed (mentally) on acquiring of wealth, and women and quarrelling in pursuit of them.*



83

हास मांस लोही अने अशुधिथी भरपुर वैतरणी-नदीमां दुःख \* हाड़, मांस, रुधिर और अशुचि से परिपूर्ण वैतरणी नदी.

*The tortunes and agonies caused to those thrown in the river Vaitarni full of bloody impurities like bone-bits, flesh etc.*



84

शुद्धं भोलचुं, कठोर रीते पीडा करवा, हुकम करवा दिगेरेनुं नरकमां इण. \* झूठ बोलना, कठोरता करना, पर पीडा का हुकम करना आदि का फल.

*The plight of those liars who gave orders for ruthless cruel tortures (to others)*



नरकादि दुर्गतिमां लई जनारा व्यसनो धुमपान-ड्रग्स-टी.वी.-अंडे-मांस-गर्भपात-परस्त्रीगमन सेवनादि पापोथी सावधान रहो नहि तो आ भव अने परभव णंने भगइशे.

**आ ननामी दररोज  
जे हजार लोकोनुं वाहन भने छे !**

धुमपानकी ड्रग्स भारतमां सेर  
२००० लोको मृत्यु पावे छे...

धुमपानकी घनां मृत्युनी संख्या...

- दुनियांमां घनां भुन इलां पर जणी चपु छे...
- दुनियांमां घनां आरपान इलां ३० जणी चपु छे...
- टावांनदीसानी घनां मृत्यु इलां १८ जणी चपु छे...
- मोटर आइसक्रामी घनां मृत्यु इलां १२ जणी चपु छे...

धुमपानकी घनां मृत्युनी संख्या...

हर घरे ... ३,३०,०००  
हर सोप ... २,०००  
हर इलाके ... ८२

**ड्रग्स!!! मोतने निभंभ्रण !!!**

मुं ड्रग्सकी लागि मने छे १ स १ लागि मो छे, परंतु गिर लागि ॥ मृत्यु पाणीनी लागि ॥

सोडि कारोना आनां पापान इलां गैरनामी चिडार...  
इलां नरकीनी जंइइलां जलछे आनां नरे आनां जेलांने तेलांकी १२ रणो

नरकादि दुर्गतिमें ले जाने वाले व्यसन धुमपान-ड्रग्स-टी.वी.-अंडे-मांस-गर्भपात-परस्त्रीगमन सेवनादि पापो से सावधान रहे नहि तो यह भव और परभव दोनो बिगड़ेंगे.

**एड्स  
इस युग का महाकाल**

**TIME BOMB**

एक में होनेवाली २,००० लाख तक की मृत्यु संख्या

	एक आठ बी. काउन्स	एक के क्वी
विश्वमें	४ करोड़	४० लाख
भारतमें	४० लाख	४० लाख
प्रति दिन मृत्यु अंका	१०,०००	

**टेलिविजनकी सावधान !**

आपको-सुपारीकी वीडियो प्रकृति ले  
इलांने लांनुं टीवी...  
तेमना स्टार-गुणले यगटी लांनुं टीवी...  
तेमना विचार-स्वातंत्र्य ले दुंधी लांनुं टीवी...  
आपना आणको ले टेलिविजन अंने सारुं  
मार्नेटरीन आपो, लविधने उपपयण अनापो.

**टेलिविजनकी  
जानमांथी डोए उगारशे ?**

टेलिविजनलां हाथ आणमाल ले पर  
अलेइ विइत अतर उपपये छे.  
आपना आणको ले टेलिविजन अंने  
सारुं मार्नेटरीन आपो,  
लविधने उपपयण अनापो.

Beware of the sins of vices of Smoking-Drugs-T.V.-Eggs-Non-Veg.-Abortion-Sexual relation with other's women etc., otherwise it will throw the soul to degraded incarnation of Hell & Spoil this birth as also the next.

**गर्भपात महापाप छे.**

**अंडे में जीवन है।**

किसी का जीवन छीन लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं है।  
दुसरो की हत्या करके जीवन निभाना, यह क्या मान्यता है ?

मिशनरिय विश्व विद्यालय,  
अमेरिका के वैज्ञानिकों ने  
सुझाया किया है कि फलित या  
अफलित कोई भी अंडा  
निर्जीव नहीं होता है।  
हर अंडे में जीवन है।  
इसमें इन्फेसिबल आत्मा,  
अपययण आदि जैविक  
क्रियाएं होती हैं।





85  
भांसनी वेपार करे,  
मांस का व्यापार.  
Those trading in meat.



86  
विकारी द्रष्टि दोषणुं ५०। विकारी द्रष्टि वीष का फल।  
The plight of those who looked at others  
with lustful intention.



87  
देष्युः दारुण न करणुं ५०। देवगुरु वर्जित न करणे का फल।  
The plight of one who did not pay obeisance to  
the Arihantas, Siddhas and Sadhus.



88  
निरक्षर विषयाङ्गितुं ५०। निर्लज्ज विषयावित्त का फल।  
The result of shameless indulgence in  
sex and sensual pleasures.



89  
अभक्ष्य पानुं ५०।  
अभक्ष्य पान का फल।  
The result of drinking the forbidden drinks.



90  
निरक्षर याणानुं ५०। निर्लज्ज घेष्ठा का फल।  
The result of indulging in shameless  
(amorous) gestures.



91  
मुक्के भ्रातृ तेलारणे ५०।  
मुष्टि से प्राण लेने का फल।  
The plight of one who hits other fatally.



92  
शुचोने भेदणारणे ५०।  
सूई आवि से जीवों को भेदने का फल।  
The plight of one who pierced other creatures.



93  
मिथ्यात्व अणे कथायुं ५०।  
मिथ्यात्व और कथाय का फल।  
The result of false beliefs and passions.



94  
डेरे वतविनारणे ५०।  
किरी पर अत्याधिक जूलम करना, तबाही मचाना।  
The result of creating nightmares and havoc for others.



95  
व्यासनी, कर्मदालुं ५०।  
द्वयसन और कर्मदान का फल।  
The result of vicious habits and sinful deeds.